

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 601]

रायपुर, रविवार, दिनांक 3 दिसम्बर 2023 — अग्रहायण 12, शक 1945

गृह (सी-अनुभाग) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 20 नवम्बर 2023

अधिसूचना

क्रमांक एफ-4-33/गृह-सी/2013.— यतः राज्य सरकार को सूचनाएं प्राप्त हैं कि चेतना नाट्य मंच (CNM) संगठन आग्नेय अस्त्रों, विस्फोटकों एवं अन्य उपकरणों के उपयोग को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित, विधि प्रशासन में हस्तक्षेप, उनके द्वारा लोक व्यवस्था, शांति में बाधा एवं नागरिकों की सुरक्षा में खतरा उत्पन्न करते हुए एवं विधि द्वारा स्थापित संस्थाओं की अवज्ञा को बढ़ावा देते हुए तथा विधि विरुद्ध गतिविधियों में लिप्त है, जो कि राज्य की सुरक्षा के प्रतिकूल है;

और यतः, चेतना नाट्य मंच (CNM) के संबंध में, राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि ऐसे संगठन को विधि विरुद्ध संगठन घोषित करना आवश्यक है;

अतएव, छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा अधिनियम, 2005 (क्र. 14 सन् 2006) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, चेतना नाट्य मंच (CNM) को, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिये, विधि विरुद्ध संगठन घोषित करती है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी.पी. कौशल, उप-सचिव.

अटल नगर, दिनांक 20 नवम्बर 2023

क्रमांक एफ-4-33/गृह-सी/2013.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 20-11-2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी.पी. कौशल, उप-सचिव.

Atal Nagar, the 20th November 2023

NOTIFICATION

No. F-4-33/Home-c/2013.— Whereas, the State Government has reports that the organization Chetna Natya Manch (CNM) is indulging into unlawful activity, actively encouraging use of fire arms, explosives and other devices, causing interference with the administration of law, thereby disturbing public order, peace and endangering safety of citizens and facilitating disobedience to institutions established by law, which is prejudicial to the security of the State;

And whereas, having regard to Chetna Natya Manch (CNM), the State Government, is satisfied that it is necessary to declare such organization as unlawful organization;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Chhattisgarh Vishesh Jan Suraksha Adhiniyam, 2005 (No. 14 of 2006), the State Government, hereby, declares Chetna Natya Manch (CNM) as "unlawful organization" for a period of one year from the date of publication of this notification.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
D. P. KOUSHAL, Deputy Secretary.